

प्रेस विज्ञप्ति  
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।  
दिनांक 30-06-2015

श्री जगमोहन यादव द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का पदभार ग्रहण किया गया ।

आज दिनांक 30-06-2015 को श्री जगमोहन यादव द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का पदभार ग्रहण किया गया।

श्री जगमोहन यादव का जन्म 30-12-1955 को जनपद जौनपुर में हुआ था। आप दर्शनशास्त्र से एम0ए0 करने के पश्चात् वर्ष 1983 बैच में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। एसवीपी एनपीए हैदराबाद व पीटीसी-प्रथम मुरादाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत सहायक पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षणाधीन, इलाहाबाद एवं सहायक पुलिस अधीक्षक कानपुर, अलीगढ़, पुलिस अधीक्षक नगर अलीगढ़, पुलिस अधीक्षक महाराजगंज, देवरिया, सेनानायक चतुर्थ वाहिनी पीएसी इलाहाबाद, पुलिस अधीक्षक सीतापुर, देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, कानपुर, सेनानायक 42वीं वाहिनी पीएसी इलाहाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा, एआईजी पीएसी मुख्यालय लखनऊ, पुलिस अधीक्षक पीएचक्यू, इलाहाबाद के पदों पर नियुक्त रहे ।

आप दिनांक 21-04-1998 को पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस उपमहानिरीक्षक पीटीएस मेरठ, पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय लखनऊ, पुलिस उपमहानिरीक्षक सीबीसीआईडी, लखनऊ, पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्मिक पी0एच0क्यू0 इलाहाबाद, पुलिस उपमहानिरीक्षक बार्डर रेंज, बहराइच, पुलिस उपमहानिरीक्षक टेलीकॉम लखनऊ, पुलिस उपमहानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर, पुलिस उपमहानिरीक्षक ई0ओ0डब्लू0 लखनऊ, पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली व लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे ।

दिनांक 30-11-2004 को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस महानिरीक्षक टेलीकॉम, लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर जोन गोरखपुर, बरेली जोन बरेली, पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ, पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन मेरठ, गोरखपुर जोन गोरखपुर, पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक टेलीकॉम, लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, पुलिस महानिरीक्षक पीटीसी सीतापुर के पदों पर नियुक्त रहे ।

दिनांक 09-11-2010 को अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस महानिदेशक पीटीसी सीतापुर, एटीसी सीतापुर, पीटीसी मुरादाबाद, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी, लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कारागार, लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी, लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहें हैं और वहीं पर दिनांक 31-12-2014 को पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत हुए एवं पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी उ0प्र0, लखनऊ में कार्यरत रहे। आज दिनांक 30-06-2015 को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पद पर नियुक्त हुए।

आपको सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस मेडल एवं विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस मेडल मिला है ।